

असली ऑयल के नाम पर बेच रहे थे नकली, पांच गिरफ्तार

67.5 लीटर माल व 36 खाली डिब्बे जब्त बस्सी

Published: January 07, 2022 12:12:35 am

विराटनगर (जयपुर). थाना पुलिस ने कॉपीराइट एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए एक रजिस्टर्ड ऑयल कंपनी के नाम से नकली ऑयल बेचने के मामले में कार्रवाई करते हुए पांच जनों को गिरफ्तार कर नकली ऑयल जप्त किया है। थानाप्रभारी रामअवतार मीणा ने बताया कि क्षेत्र में एक रजिस्टर्ड ऑयल कंपनी के डिब्बों में नकली ऑयल भरकर बेचने की सूचना मिली। जिस पर जयपुर ग्रामीण एसपी मनीष अग्रवाल के निर्देश पर टीम गठित कर कार्रवाई करते हुए मैड़ निवासी मुकेश सैनी, ढाणी मेंदोला निवासी सुरेश सैनी, मातादीन सैनी, कुहाड़ा निवासी ललित नैनावत, गढ़ बसई तन थानागाजी निवासी पिटू सैनी को गिरफ्तार कर 67.5 लीटर नकली ऑयल व 36 खाली डिब्बे जब्त किए।



असली ऑयल के नाम पर बेच रहे थे नकली, पांच गिरफ्तार

चलते ट्रेलर में पीछे से घुसी पिकअप, दो गम्भीर घायल...

गठवाड़ी. मनोहरपुर दौसा नेशनल हाइवे स्थित चिलपली मोड़ पुलिया पर बुधवार देर रात चलते ट्रेलर में लोडिंग पिकअप पीछे से घुस गई। हादसे में चालक, खलासी गम्भीर घायल हो गए। रायसर थाना पुलिसकर्मियों व हाइवे पेट्रोलिंगकर्मियों ने घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल भिजवाया। रायसर थाना प्रभारी रामधन सांडीवाल ने बताया कि मनोहरपुर से दौसा की ओर जा रही लोडिंग पिकअप चिलपली मोड़ पुलिया पर आगे चल रहे ट्रेलर में अनियंत्रित होकर घुस गई। हादसे में दौसा निवासी अन्नू मीणा (30) व नयाबास लालसोट निवासी भरतलाल (35) गम्भीर घायल हो गए। पुलिस ने ग्रामीणों की सहायता से केबिन में फंसे चालक व खलासी को निकाला। हाइवे पर यातायात भी बाधित रहा। ट्रेलर लेकर चालक फरार हो गया।

यहां डिवाइडर में घुसी कार....

इधर, मनोहरपुर दौसा हाइवे पर गुरुवार को आंधी कस्बे के समीप कार अनियंत्रित होकर हाइवे किनारे बने डिवाइडर में जा घुसी। हादसे में चालक के अलावा कार सवार महिला घायल हो गई।

Source : <https://www.patrika.com/bassi-news/sale-of-fake-oil-in-jaipur-7261972/>